

‘The’ का प्रयोग कहाँ पर (Where to use ‘The’):

Few Cases:

- **With unique People/objects.** (यूनीक लोगों या वस्तुओं के साथ जो एक ही हैं)
The Sun, The Earth, The Moon, The president, The CEO, The world, The sky etc.
- **With adjectives referring to a whole group of people.**
(जो विशेषण पूरे एक ग्रुप या जाति का बोध कराएँ)
The old, The young, The rich, The poor, etc.
- **With famous buildings, museums and monuments.**
(प्रसिद्ध भवन, संग्रहालयों व स्मारकों के साथ)
The Taj Mahal, The Qutub Minar, The Lal Quila, The Eiffel Tower, The Globe etc.
- **With superlative degrees of an adjective.**
(किसी विशेषण की **superlative degrees** के साथ)
The highest, The most, The lowest, The youngest, The oldest, The poorest etc.
- **With ordinal numbers.** (क्रमवाचक संख्याओं से पहले)
The last chapter, The first time, The second occasion, The third member etc.
- **With countries whose names include words like kingdom, states or republic.**
(जिन देशों के नाम में किंगडम, स्टेट्स या फिर रिपब्लिक आये।)
The United States, The United Kingdom, The Republic of Ireland etc.
- **With rivers, canals & oceans.** (नदी, नहर व सागरों के साथ)
The Gangas, The Nile, The Atlantic, The Pacific etc.
- **With countries that have plural names.**
(उन देशों के साथ जिनके नाम बहुवचन हों यानि अन्त में s लगा हो)
The Netherlands, The Philippines etc.
- **With the names of families.** (परिवारों के नामों के साथ)
The Ranas, The Khans, The Rawats, The Guptas, The Jacksons etc.
- **Before the word ‘only’ if in the sentence the meaning of ‘only’ is ‘only one’.**
(**the** का प्रयोग **only** से पहले केवल तब किया जाता है जब वाक्य में **only** का मतलब ‘इकलौता’ हो)
The only son, The only friend, The only batsman etc.
- **‘The’ का प्रयोग ‘whole’ से पहले व ‘all’ के बाद होता है।**
‘The’ is used before the word ‘whole’ and after the word ‘all’.
I am reading whole book. (Incorrect)
I am reading the whole book. (Correct)

All books are kept on the table. (Incorrect)
All the books are kept on the table. (Correct)